



# स मा चार

## लोकसभा स्पीकर सभी विधानसभा अध्यक्षों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करें - श्री गौतम

भोपाल, 17नवंबर। मध्यप्रदेश विधानसभा सभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने मंगलवार को शिमला में 82 वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आहूत स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा में उपसभापति श्री हरवंश जी एवं कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए पी सिंह उपस्थित थे।

श्री गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकते हैं जो देश की सभी सभी विधानसभाओं में लागू किए जा सकें।

श्री गौतम ने अपने उद्बोधन में बिना बहस के पास होने वाले कानूनों के विषय में भी सवाल उठाया, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विशेषकर दण्डक अपराध के लिए तय होने वाले ऐसे कानूनों पर सदन में बहस अत्यंत आवश्यक है।

श्री गौतम ने पीठासीन अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी अपने विचार रखे।

श्री गौतम ने स्पीकर पद की शपथ कराने का सुझाव भी बैठक में दिया।

श्री गौतम ने सदन में सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए लगातार कम होते समय पर चिंता भी जताई।

श्री गौतम ने मप्र विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान 1 दिन का प्रश्नकाल सिर्फ प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के लिए रखने के नवाचार की जानकारी भी बैठक में दी।

श्री गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि

पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस के 100 साल पूर्ण हो रहे हैं। इन सौ सालों को हमें तीन चरणों में बांट कर देखना चाहिए। पहला स्वतन्त्रता से पूर्व का समय, दूसरा जब लोकसभा और विधानसभाओं में एक दलीय राज था और तीसरा जब केंद्र एवम राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव